

शांति सरोवर का उद्घाटन एवं प्रभु समर्पण समारोह

हांसी (हरियाणा) में "शांति सरोवर" का उद्घाटन एवं प्रभु समर्पण समारोह का आयोजन आदरणीया दादी जानकी जी के कर-कमलों द्वारा लगभग 1० हजार भाई बहनों की उपस्थिति में हर्षोउल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डी.पी. वत्स मुख्य अतिथि थे। पुलिस अधीक्षक विरेंद्र विज एवं युवा भाजपा नेता अजय सिंधु विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। पंजाब जाने डायरेक्टर बीके अमीरचंद जी ने प्रेरक उद्बोधन किया।

ब्रह्माकुमारीज की मुख्या प्रशशिका दादी जानकी जी ने अपने स्नेहिल आशीर्वचन में उपस्थित लोगों से सच्चाई, सफाई, पवित्रता, धैर्यता व मधुरता को धारण की सीख दी। इस अवसर पर पूरे विधि विधान से एवं भावपूर्ण माहौल में बाल ब्रह्मचारिणी ६ पवित्र कन्याओं का प्रभु समर्पण समारोह हुआ।

मुख्या अतिथि राज्यसभा सांसद जनरल डी पी वत्स ने कहा ब्रह्माकुमारीज विद्यालय त्याग, तपस्या, एवं सत्य ज्ञान का घोटक है। एस पी वीरेंद्र विज ने हांसी जिला पुलिस की तरफ से सभी का स्वागत किया। बीके अनीता बहिन ने मंच सञ्चालन किया। हांसी सर्कल इंचार्ज बीके लक्ष्मी बहिन ने सभी का भावभीना स्वागत सम्बोधन किया। सभी समाज सेवी संस्थाओं एवं मीडिया की पूरी टीम ने दादी जानकी जी का शॉल एवं गुलदस्तों से हार्दिक अभिनन्दन व्यक्त किया।

फोटो कैप्शन....

- 1 - मंच पर दाएं से बाएं, श्री वीरेंद्र विज (एस पी), हंसा बहिन, दादी जानकी जी, भ्राता अमीरचंद जी, बीके लक्ष्मी, लेफ्टिनेंट जेनेरल डी पी वत्स जी (एम पी) वक्तव्य देते हुए एवं अन्य
- 2 - विशाल जनसमूह
- 3 - दीप प्रज्वलन - शांति सरोवर के उद्घाटन अवसर पर दीप प्रज्वलित करते हुए दादी जानकी जी, भ्राता अमीरचंद जी, बीके प्रेम बहिन जी, बीके लक्ष्मी बहिन जी एवं अन्य
- 4- शांति सरोवर के उद्घाटन एवं प्रभु समर्पण समारोह पर केक काटते हुए दादी जी, भ्राता अमीरचंद जी, भाजपा युवा नेता अजय सिंधु, ले. जेनेरल डी पी वत्स, श्री वीरेंद्र विज (पुलिस अधीक्षक)
- 5 - ध्वजारोहण - दादी जानकी जी ध्वजारोहण करते हुए
- 6- शांति सरोवर पट्टिका का अनावरण करते हुए आदरणीया दादी जी, हंसा बहिन, भ्राता अमीरचंद जी, बीके लक्ष्मी, बीके सुरेंद्र एवं अन्य
- 7- समर्पण वाली कन्यार्ये दादी जानकी जी का आशीर्वाद लेते हुए

8 - शांति सरोवर बिल्डिंग का फ्रंट व्यू

With Regards

B.K. Luxmi

Shiv Darshan Bhawan,

Near Kali Devi Road **Hansi - 125033**

Mob. 9466008066 Email.: hansi@bkiyv.org